

## प्रेस नोट दिनांक-08.06.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में इनामियां, हिस्ट्रीसीटर, गैंगेस्टर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा साढ़े तीन वर्ष से फरार 25000/-रुपये के इमानिया अपराधी रामशरण उर्फ राजा उर्फ फ्राड को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.03.2018 को चौकी सीतापुर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 08/18 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत किया गया। थाना कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा रामशरण उर्फ राजा उर्फ फ्राड के सहअभियुक्त को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल बरामद की गयी थी। यह अभियुक्त घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे। आज दिनांक 08.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा समय करीब सुबह 04 बजे खोही तिराहे से अभियुक्त रामशरण उर्फ राजा उर्फ फ्राड पुत्र नत्थु पटेल उर्फ भैरमदीन पटेल निवासी चुवाखेरवा थाना बरौंधा जिला सतना म0प्र0 को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

अभियुक्त की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25000/-रुपये इनाम घोषित किया गया था।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री भागीरथी पाण्डेय
3. आरक्षी प्रवीण राय
4. आरक्षी सर्वेश मौर्य
5. आरक्षी शिवलाल
6. आरक्षी विपिन

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं विक्री की रोकथान हेतु चलाये अभियान के क्रम श्री सुषासचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह तथा उनके हमराहियों द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र गंगा प्रसाद निवासी गुरौली सपहाई थाना बबेरु जनपद बांदा को 500 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

500 ग्राम गांजा

### बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह थाना मानिकपुर
2. आरक्षी पंकज कुमार
3. आरक्षी रविन्द्र प्रताप

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त सलामत सेख पुत्र मुन्नू निवासी देवल थाना पहाड़ी चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

20 क्वार्टर देशी शराब

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव थाना पहाड़ी

## 2. आरक्षी दीपक विश्वकर्मा

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर द्वारा मु0अ0सं0 237/20 धारा 363/366/376 भादवि व 04 पोक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त बलदाऊ पुत्र श्यामलाल निवासी चकौंद थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर
2. आरक्षी रोशन
3. आरक्षी पुष्पेन्द्र

(ख). उ0नि0 श्री रवि सिंह थाना राजापुर तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 110/21 धारा 363/366/504 भादवि0 के सम्बन्धित अपहृता को सकुशल बरामद किया तथा अभियुक्त भोलू सिंह पुत्र शिवनरेश निवासी बरुआ थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री रवि सिंह थाना राजापुर
2. आरक्षी जितेन्द्र मौर्या
3. महिला आरक्षी रूबी पाल

## (5). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 2030 थाना कोतवाली कर्वी अंतर्गत दिनांक 07/06/2021 को समय 17:36 बजे इवेंट संख्या 12249 द्वारा घटनास्थल रामसैया थाना कोतवाली कर्वी से कॉलर जितेंद्र कुमार मिश्रा ( मोबाइल नंबर 8318712922 ) द्वारा सूचना दी गयी कि दो बाइक का आपस में एक्सीडेंट हो गया है दो लोग घायल है एक लोग गंभीर रूप से घायल है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि दो मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गई है जिससे दो लोग घायल हो गये है जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है घायल व्यक्ति छोटेलाल s/o रामदयाल को जिला अस्पताल सोनेपुर में भर्ती कराया गया।

### पीआरवी स्टाफ

सब कमांडर - c रविकांत

सब कमांडर - c मोहम्मद आरिफ

## (6). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 2046 थाना रैपुरा अंतर्गत दिनांक 07/06/2021 को समय 19:10 बजे इवेंट संख्या 14047 द्वारा घटनास्थल दरियाव पुर थाना रैपुरा से कॉलर महेश ( मोबाइल नंबर 9336554692 ) द्वारा सूचना दी गयी कि एक लावारिश बुजुर्ग महिला इनके घर पर आ गई है उन्हें खासी आ रही है कही जा नहीं रही है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को कॉलर महेश ने बताया कि एक लावारिश बुजुर्ग महिला इनके घर पर आ गई है। पीआरवी कर्मियों को बुजुर्ग महिला ने अपना नाम रमकी w/o सुकर प्रसाद विश्वकर्मा r/o मुसिवा थाना कमसिन जिला बाँदा उम्र लगभग 60 वर्ष अपने मायके कपसेठी ps कोतवाली कर्वी जिला चित्रकूट आ रही थी रास्ता भटक जाने के कारण बुजुर्ग महिला दरियाव पुरवा थाना रैपुरा आ गई थी। और दो दिन से यही पर है। पीआरवी कर्मियों द्वारा महिला के मायके कपसेठी में सम्पर्क करके बुजुर्ग महिला के लड़के राजाराम का मोबाइल नंबर 7317520604 लिया गया और लड़के राजाराम से संपर्क करके उसको पूरी जानकारी दी गई। लड़के राजाराम ने बताया कि मेरी माता जी तीन दिन पहले गई थी उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी जिसको लेकर हम लोग बहुत परेशान थे। पीआरवी कर्मियों ने लड़के राजाराम को बताया कि आपकी माता जी सकुशल है आप लोग आकर उनको ले जाये। पीआरवी कर्मियों ने बुजुर्ग महिला को कॉलर के यहां रुकवा दिया और रहने खाने की व्यवस्था करा दी है।

आज दिनांक 08/06/2021 को बुजुर्ग महिला का लड़का राजाराम दरियाव पुरवा आ गया और अपनी माता जी को सकुशल देखकर प्रसन्न हो गया। पीआरवी कर्मियों ने बुजुर्ग महिला को उसके लड़के राजाराम को सकुशल सुपुर्द किया गया। लड़का राजाराम अपनी माता जी को सकुशल अपने घर ले गया। राजाराम ने पीआरवी कर्मियों और up 112 की भूरी भूरी प्रसंसा और सराहना की।

#### **पीआरवी स्टाफ**

कमांडर - hc सुशील चंद्र निगम

सब कमांडर - hc मोहम्मद इरशाद

पायलट - hc बलबीर सिंह

(7). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 08.06.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम कलचिहा, जमिरा कालोनी व कस्बा बरगढ़ में, एंटी रोमियो टीम मारकुण्डी द्वारा ग्राम मुलिया पुरवा व शीतल का पुरवा, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा, पटेल चौराहा, काली देवी चौराहा में, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा बाजार, शिवनगर, सुभाषनगर, डॉट पुल के पास, एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा आर्यावर्त बैंक, बिसंडा तिराहा आदि जगहों में, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बस स्टैण्ड, बाजार रोड, आनन्द माता मन्दिर, एसबीआई बैंक, आर्यवर्त बैंक में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।